

प्रेषक,
राजेन्द्र सिंह पतियाल,
उप सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,
निदेशक,
भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

औद्योगिक विकास अनुभाग-1

देहरादून, दिनांक: 10 दिसम्बर, 2018

विषय: खनन पट्टाधारक श्री अशोक कुमार की मृत्यु के उपरान्त खनन पट्टा का हस्तान्तरण उनकी पत्नी श्रीमती कंचन बंसल पत्नी स्व० श्री अशोक कुमार निवासी 8/6 कैनाल रोड, भोटिया पड़ाव, हल्द्वानी नैनीताल के नाम किये जाने हेतु अनुपूरक पट्टा विलेख निष्पादन के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या-1670/मुख०/05/बागे०/भू०खनि०ई०/2005-06, दिनांक 18 अक्टूबर, 2018 के साथ संलग्न अनुपूरक खनन पट्टा विलेख को निष्पादित कर मूलरूप में इस निर्देश के साथ संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है कि उक्त निष्पादित अनुपूरक खनन पट्टा विलेख के संबंध में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करते हुए, विलेख की एक प्रति शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक : यथोक्त।

भवदीय,

(राजेन्द्र सिंह पतियाल)
उप सचिव

संख्या: 2674 (1) / VII-1 / 2018 तददिनांक।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. जिलाधिकारी, बागेश्वर।
2. श्रीमती कंचन बंसल पत्नी स्व० श्री अशोक कुमार, निवासी 8/6 कैनाल रोड, भोटिया पड़ाव, हल्द्वानी, जनपद नैनीताल।
3. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अर्पण कुमार राज)
अनु सचिव